

प्रेस नोट

दिनांक 24.03.2021

सराहनीय कार्य थाना अमेठी व एसओजी जनपद अमेठी

अवैध अपमिश्रित शराब के साथ 04 अभियुक्त गिरफ्तार, 35 पेटियों (1575 शीशी) में अवैध अपमिश्रित शराब बरामद ।

जनपद अमेठी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत अभियान के क्रम में अमेठी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध अपमिश्रित शराब के बिक्री के विरुद्ध अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 24.03.2021 को प्र0नि0 श्याम सुन्दर थाना अमेठी मय हमराह व एसओजी अमेठी मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर नकली अपमिश्रित देशी शराब के साथ पल्सर मोटरसाइकिल यूपी 72 एबी 1733 पर सवार अभियुक्त साहबदास पुत्र रामजस वर्मा को अन्तू बाईपास के पास से समय करीब 05:00 बजे प्रातः को गिरफ्तार किया गया। मोटरसाइकिल पर 02 पेटी अवैध शराब बरामद हुआ। पूछताछ में अभियुक्त साहबदास ने बताया कि यह शराब मैं ग्राम सुबेदार का पुरवा थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ से लाया हूँ, वहां पर और भी भारी मात्रा में अवैध शराब रखी है। अभियुक्त की निशानदेही पर बताये हुये स्थान ग्राम सुबेदार का पुरवा थाना सांगीपुर से 03 अभियुक्त 1. चन्दन विश्वकर्मा पुत्र त्रिवेणी प्रसाद 2. राजेन्द्र सिंह पुत्र श्रवण कुमार, 3. सोनू सरोज पुत्र बुद्धू सरोज को गिरफ्तार किया गया व दो व्यक्ति मौके का फायदा उठाकर भाग गये। मौके से अवैध शराब की 33 पेटी अवैध अपमिश्रित शराब जिसमें 20 पेटी रायल स्टेग जिसपर फार सेल इन यूपी लिखा है बरामद हुई। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हम सभी लोग मिलकर अवैध अपमिश्रित शराब तैयार करते हैं व जगह-जगह गांव व कस्बों में सप्लाई कर बेचते हैं, बरामद शराब नकली है व शीशी पर लगा रैपर व बारकोड भी नकली है। फरार अभियुक्तों का नाम 1. नन्हे सरोज पुत्र अज्ञात नि0 सूबेदार का पुरवा थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़, 2. अज्ञात बताया। थाना अमेठी द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी स्थान- अन्तू बाईपास अमेठी के पास

दिनांक- 24.03.2021

समय- 05:00 बजे प्रातः

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. साहबदास पुत्र रामजस वर्मा नि0 कोहरा थाना अमेठी जनपद अमेठी।
2. चन्दन विश्वकर्मा पुत्र त्रिवेणी प्रसाद नि0 कोहरा थाना अमेठी जनपद अमेठी।
3. राजेन्द्र सिंह पुत्र श्रवण कुमार नि0 नवगीर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।
4. सोनू सरोज पुत्र बुद्धू सरोज नि0 गड़ियान थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

फरार अभियुक्त का नाम व पता-

1. नन्हे सरोज पुत्र अज्ञात नि0 सूबेदार का पुरवा थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।
2. नाम पता अज्ञात

बरामदगी-

- 35 पेटियों (1575 शीशी) में अवैध अपमिश्रित शराब।
- पल्सर मोटरसाइकिल यूपी 72 एबी 1733 (धारा 207 एमवी एक्ट में सीज)।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

- मु0अ0सं0 112/21 धारा 419,420,467,468,471,269,272 भादवि व 60/63/72 आबकारी अधिनियम थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।

पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्यामसुन्दर थाना अमेठी जनपद अमेठी।
2. उ0नि0 विनोद यादव प्रभारी एसओजी जनपद अमेठी।
3. उ0नि0 अभिनेष कुमार थाना अमेठी जनपद अमेठी।
4. का0 बृजेश कुमार थाना अमेठी जनपद अमेठी।
5. का0 मो0 रजा थाना अमेठी जनपद अमेठी।
6. हे0का0 सोनू यादव एसओजी जनपद अमेठी।
7. हे0का0 मतलूब एसओजी जनपद अमेठी।
8. का0 दिनेश यादव एसओजी जनपद अमेठी।
9. का0 अंकित पाण्डेय एसओजी जनपद अमेठी।